



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2015/माघ 10, 1936

No. 28] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2015/MAGHA 10, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2015

सं. 83/( आर ई-2013 )/2009-2014

**विषय:—**आनलाइन आईईसी आवेदन : दिनांक 27-11-2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 76 का कार्यान्वयन ।

**फा. सं. 01/93/180/20/एम 13/पीसी-2 ( बी ).—**दिनांक 01-01-2015 से आईईसी के लिए आनलाइन आवेदनों की अनिवार्य प्रतिक्रा के कार्यान्वयन को 27-11-2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 76 के द्वारा अधिसूचित किया गया था । तथापि, इसे दिनांक 6-1-2015 की सार्वजनिक सूचना सं. 80 के द्वारा प्रास्थगित किया गया था ।

2. अब, विदेश व्यापार नीति (2009-14) के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा दिनांक 01-02-2015 से आनलाइन आईईसी के लिए आवेदन की नई प्रणाली के कार्यान्वयन को अधिसूचित करते हैं । निम्नलिखित दस अधिसूचित बैंकों नामतः (i) एचडीएफसी बैंक; (ii) आईसीआईसीआई बैंक; (iii) बैंक ऑफ इंडिया; (iv) भारतीय स्टेट बैंक; (v) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया; (vi) पंजाब नेशनल बैंक; (vii) आईडीबीआई; (viii) एक्सिस बैंक; (ix) यूनियन बैंक आफ इंडिया; (x) ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स के साथ नेट-बैंकिंग की सुविधा वाले आवेदक दिनांक 31-12-2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 9 में निर्धारित विस्तृत दिशा-निर्देश के अनुसार दिनांक 27-11-2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 76 (आर ई-2013) के द्वारा अधिसूचित प्रपत्र में आनलाइन आवेदन का सकते हैं ।

3. आवेदक जिनके पास उपरोक्त बैंकों के माध्यम से नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है , उसमें यथा निर्धारित दस्तावेजों के साथ मौजूदा प्रपत्र (एनएफ-2क) और प्रक्रिया में वास्तविक रूप में पहले से (01-02-2015 से पहले) आईईसी के लिए मैनुअल आवेदन अगले आदेशों तक प्रस्तुत कर सकते हैं ।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: सार्वजनिक सूचना सं. 76 (आरई-2013)/2009-2014 दिनांक 27 नवम्बर, 2014 के

अनुसार आईईसी के लिए आनलाइन आवेदन की नई प्रणाली 01-02-2015 से कार्य करना शुरू करेगी। तथापि, आवेदन-पत्र को मैनुअल तरीके से सौंपने की सुविधा, उन आवेदकों के लिए जारी रहेगी जिनके पास उपरोक्त पैरा 2 में यथा सूचीबद्ध दस बैंकों के साथ नेट बैंकिंग की सुविधा तक पहुंच नहीं है। आईईसी के लिए मैनुअल तरीके से आवेदन करने वाले आवेदक क्षेत्रीय प्राधिकरणों के पास प्रपत्र और प्रक्रिया में यथा निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन-पत्रों को सौंपने के लिए मौजूदा प्रपत्र (एएनएफ-2क, 01-02-2015 से पहले यथा मौजूद) और प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं।

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 30th January, 2015

**No. 83/(RE-2013)/2009-2014**

**Subject :—Online IEE applications: Operationalisation of the Public Notice No. 76 dated 27/11/2014.**

**F. No. 01/93/180/20/AM-13/PC-2(B).**—The operationalisation of the mandatory system of online applications for IEC with effect from 01-01-2015 was notified vide Public Notice 76 dated 27-11-2014. This was, however, kept in abeyance vide Public Notice No. 80 dated 6.1.2015.

2. Now, in exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy (2009- 2014), the Director General of Foreign Trade hereby notifies operationalisation of the new system of applications for online IEC with effect from 01/02/2015. Applicants having access to net-banking facility with the following ten notified banks, namely, i) HDFC Bank; ii) ICICI Bank; iii) Bank of India; iv) State Bank of India; v) Central Bank of India; vi) Punjab National Bank; vii) IDBI; viii) Axis Bank; ix) Union Bank of India; x) Oriental Bank of Commerce, can apply online in the format notified vide Public Notice No. 76 (RE-2013), dated 27-11-2014 as per detailed guidelines laid down in Public Notice No.79 dated 31-12-2014.

3. Applicants who do not have access to net banking through the above banks can submit manual applications for IEC as before (existing prior to 01/02/2015), in physical form in the existing format (ANF-2A) and procedure with documents as prescribed therein, until further notice.

4. **Effect of this Public Notice :** The new system of online applications for IEC as per the Public Notice No. 76 (RE-2013)/2009-2014 dated the 27th November, 2014 will be operationalized with effect from 01/02/2015. The facility of submission of application in manual mode will, however, continue for those applicants who do not have access to net banking facility with the ten notified banks, as listed in Para 2 above. Applicants, applying for IEC in manual mode, may utilise the existing format (ANF 2A, as existing prior to 01-02-2015) and procedure to submit application to RA's office with documents as prescribed therein.

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade